

माध्यमिक / मेटास्टेटिक (डक्टल) स्तन कैंसर

इसे मेटास्टेटिक या उन्नत स्तन कैंसर के रूप में भी जाना जाता है

प्राथमिक स्तन कैंसर के बाद, द्वितीयक स्तन कैंसर के लिए इन **चेतावनी चिह्नों*** के बारे में जागरूक रहें। यह 5 मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ द्वितीयक स्तन कैंसर उत्पन्न हो सकता है।



मस्तिष्क

बार-बार सिरदर्द, उल्टी (सुबह सबसे पहले), चक्कर आना, देखने में परेशानी होना, दौरा पड़ना, सोचने समझने की शक्ति क्षीण होना, हाथ-पांव चलाने की शक्ति क्षीण होना, मूड में उतार-चढ़ाव, संतुलन में परेशानी होना, थकान। पारिवारिक सदस्यों और दोस्तों का ये कहना कि आप सामान्य नहीं लग रहे हैं।




हड्डी

हड्डियों में दर्द - सामान्यतः जांघ, हाथ, पसलियों, और कमर। हल्का दर्द या तीव्र दर्द उठना। किसी प्रत्यक्ष कारण या ट्राँमा के बिना ही हड्डी में दर्द होना। कोई नया, असामान्य, या बढ़ता हुआ दर्द महसूस होना।



फेफड़ा

सांस लेने पर छाती और पीठ में तीव्र दर्द उठना, सूखी खांसी, थकान, खून का थक्का जमने से भी साँसों की कमी हो सकती है।



लसिका ग्रंथि

छाती/बगल/गर्दन के क्षेत्रों में सूजन या गांठ और दबाव, सूखी खांसी।



यकृत


पेट फूलना, भूख न लगना, वजन घटना, थकान, दुर्बलता, दाहिने हाथ की पसलियों के पास दर्द होना।



रीढ़ की हड्डी में दबाव

असामान्य लेकिन अधिकतर आम स्तन कैंसर में तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है।

पीठ या गर्दन के बीच या ऊपर दर्द या कमजोरी, पीठ के निचले हिस्से में तेज दर्द जो बढ़ जाता है या दूर नहीं होता है, पीठ में दर्द जो खांसने, झींकने या तनाव होने पर बढ़ जाता है, पीठ दर्द जो रात में बढ़ जाता है, सुन्नता, भारीपन, छाती या पेट के चारों ओर दर्द का एक घेरा या हाथ या पैर में दर्द, एहसास में बदलाव, उदाहरण के लिए पिन और सुई या बिजली के झटके का एहसास। **यदि आपको नीचे लिखे लक्षण हैं तो अपनी चिकित्सीय टीम से शीघ्र अति शीघ्र संपर्क करें** - दुर्बलता अथवा हाथ या पांव इस्तेमाल करने में परेशानी, पीठ के निचले हिस्से में (पीठ की निचली मासपेशियों में) सुन्नता, आंत्र या मूत्राशय को खाली करने में सक्षम नहीं होना, आंत्र या मूत्राशय को नियंत्रित करने में समस्या।



कृपया विजिट करें: abcdiagnosis.co.uk

ट्विटर: @abcdiagnosis

फेसबुक: [facebook.com/abcdiagnosis](https://www.facebook.com/abcdiagnosis)

***यदि चेतावनी चिन्ह की समस्या 3 सप्ताह से ज़्यादा बनी रहती है, तो सीधे अपनी चिकित्सीय टीम से संपर्क करें।**

abcd
After Breast Cancer Diagnosis